


उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम(लि.)



1. लेखाकार	2 (एक पद अनुसूचित जाति तथा एक पद अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के कार्यों के लिये)
2. वैयक्तिक सहायक	1 (प्रबन्ध निदेशक हेतु)
3. आशुलिपिक	1
4. वरिष्ठ लिपिक	2
5. कनिष्ठ लिपिक	2
6. कनिष्ठ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	2
7. स्टोर कीपर	1
8. चालक	4
9. चतुर्थ श्रेणी	5
योग:-	24

नोट: निदेशक समाज कल्याण उत्तरांचल ही पदेन प्रबन्ध निदेशक होंगे.

वर्तमान में जिला स्तर पर स्वीकृत स्टाफ : आशुलिपिक / टंकण / बढईगिरी प्रशिक्षण केन्द्र

1. अपर जिला विकास अधिकारी(स.क.)	1	देहरादून / पौड़ी / नैनीताल:
पदेन जिला प्रबन्धक निगम		1. अनुदेशक आशुलिपिक / टंकण 6
2. सहायक प्रबन्धक	1	2. अनुदेशक बढईगिरी 1
3. सहायक लेखाकार	1	3. चतुर्थ श्रेणी 4
4. आशुलिपिक	1	(हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधमसिंह नगर)
5. कनिष्ठ लिपिक	1	
6. वसूली सहायक	1	
7. साइक्लोस्टायल ऑपरेटर / चौकीदार	1	
8. चपरासी	1	

No.14020/4(3)/2004-SG&C  
Govt of India  
Ministry of Tribal Affairs

Shastri Bhawan, New Delhi-110001  
Dated: 6.9.2004

The Secretary  
Social Welfare Department  
Government of Uttaranchal  
Dehra Dun

Sub: Clarification in respect of Guidelines of SCA to TSP

Sir/Madam,

With reference to letters received from the various States seeking clarification as to what percentage of subsidy is to be given under SCA to TSP to individuals/groups beneficiaries against the loans, I am directed to say that the objective of SCA has been expanded to cover the employment-cum-generation activities of not only the families but also run by the self-help groups/community and also the infrastructure incidental thereto. The ultimate objective of SCA too TSP is to boost the income-generation programmes and thus raise the economic and social status of tribals.

The guidelines of SCA at no stage provide for subsidies in obtaining loans from the banks. The focus in the new guidelines is on the community-based employment generating activities preferably through the self-help groups. Moreover, the distribution of assets that too where bank loans are involved is not encouraged under SCA to TSP as the same is being done by the Ministry of Rural Development under the scheme of SGSY and there is no point in duplicating the effort. Our focus is on community based activities to boost income generation.

Further, The Ministry is focusing on the community based programmes for overall improvement of the tribal area on the basis of the micro planning and in this regard the special focus is being given to the water sheds, minor irrigation works on the tribal land, collection & processing of Minor Forest Produce(MFP) and also the value addition of the natural resource-base right at the grass root level. As per the guidelines each State is supposed to identify the thrust areas relevant for the respective ITDA/ITDP out of the illustrative list of the permissible activities given in Annexure-I of the guidelines and then implement Schemes/Programmes preferably through SHGs.

The State Govt may, however, continue to finance the bankable income generation schemes /project for economic development of eligible STs through the State channelising agencies of NSIFDC at subsidised interests rates or through commercial banks claiming admissible subsidy under SGSY.

Yours faithfully,

  
(B.C.DAS)

Under Secretary to the Govt of India

Tel : 23073706

Fax : 23073160